

वर्गीकरण (Classification)

वर्गीकरण-वर्गीकरण का अर्थ है वर्ग बनाना या समूह बनाना, अर्थात् इस अध्याय के अन्तर्गत दिए गए प्रश्न में चार विकल्प होते हैं जिनमें से तीन एक समान समूह या वर्ग बनाते हैं जो विकल्प उस समूह या वर्ग में नहीं आता वही हमारा उत्तर होता है। प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्य ज्ञान के साथ कुछ विशेष नियमों का ज्ञान होना भी आवश्यक जिनका संक्षिप्त विवरण अग्रांकित है

महत्वपूर्ण नियम

नियम 1 शरीर के अंगों से संबंधित-यदि दिए गए प्रश्न में शरीर के अंगों के नाम हो तो निम्न आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है

(अ) ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर (आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा)

(ब) अन्तः व बाह्य अंग के आधार पर

(स) शरीर में उपलब्धता के आधार पर

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) आँख (b) कान (c) पैर (d) त्वचा

व्याख्या-(c) पैर को छोड़कर अन्य सभी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) आँख (b) कान (c) पैर (d) फेफड़े

व्याख्या-(d) फेफड़े को छोड़कर अन्य सभी बाह्य अंग हैं।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) आँख (b) कान (c) वृक्क (d) हृदय

व्याख्या-(d) हृदय को छोड़कर अन्य सभी अंग शरीर में जोड़े के रूप में पाये जाते हैं।

नियम 2 जल से संबंधित- यदि दिए गए प्रश्न में जल से संबंधित क्षेत्र हो तो पानी की स्थिरता या गति के आधार पर अथवा पानी की विशालता के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) नदी (b) तालाब (c) कुआँ (d) झील

व्याख्या-(a) नदी को छोड़कर अन्य सभी में पानी स्थिर रहता है जबकि नदी में पानी गति में रहता है।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) नहर (b) तालाब (c) सोता (d) नाला

व्याख्या-(b) तालाब को छोड़कर अन्य सभी में पानी गति में रहता है।

Ex:- (a) नदी (b) नाला (c) तालाब (d) समुद्र

व्याख्या-(d) नदी तथा नाले में पानी गति में तथा तालाब एवं समुद्र में पानी स्थिर रहता है अतः पानी की विशालता के अनुसार समुद्र हमारा उत्तर होगा।

नियम 3 सब्जी से संबंधित- यदि दिए गए प्रश्न में सब्जियों के नाम हो तो

जमीन के अंदर या बाहर उगने का नियम अथवा सब्जी पौधे के किस रूप में आती है इस आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) शलजम (b) चुकंदर (c) आलू (d) टमाटर

व्याख्या-(d) टमाटर को छोड़कर अन्य सभी जमीन के अन्दर आते हैं।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) आलू (b) टमाटर (c) भिंडी (d) बैंगन

व्याख्या-(a) आलू को छोड़कर अन्य सभी जमीन के बाहर उगते हैं।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) अदरक (b) प्याज (c) लौकी (d) टमाटर

व्याख्या-(c) लौकी को छोड़कर अन्य सभी पौधों में आते हैं जबकि लौकी बेल में आती है।

नियम 4 महीनों से संबंधित- यदि दिए गए प्रश्न में महीनों के नाम हो तो दिनों के आधार पर अथवा सम या विषम महीनों के आधार पर उत्तर दिया जाता है।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) जनवरी (b) जुलाई (c) अगस्त (d) फरवरी

व्याख्या-(d) फरवरी को छोड़कर अन्य सभी में 31 दिन होते हैं।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) जनवरी (b) मार्च (c) सितंबर (d) अप्रैल

व्याख्या-(d) जनवरी, मार्च में 31 दिन तथा सितंबर, अप्रैल में 30 दिन होते हैं किंतु अप्रैल सम अंक वाला महीना होता है।

नियम 5 यदि दिए गए विकल्पों में नाम दिये जाते हैं तो स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर उत्तर प्राप्त किया जाता है किंतु यदि नाम में विशेष तथ्य हो तो उसके आधार पर उत्तर प्राप्त करना चाहिए।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) मोहन (b) सुरेश (c) सीमा (d) राहुल

व्याख्या-(c) सीमा को छोड़कर अन्य सभी पुरुष नाम हैं।

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) महात्मा गाँधी (b) इंदिरा गाँधी
(c) राजीव गाँधी (d) जवाहर लाल नेहरू

व्याख्या-(a) महात्मा गाँधी को छोड़कर अन्य सभी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं।

नियम 6 यदि दिए गए विकल्पों में संगीत यंत्रों के नाम दिए गए हो तो तार द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने का नियम लगता है।

Ex:- (a) सितार (b) वीणा (c) पियानो (d) गिटार

व्याख्या-(c) पियानो को छोड़कर अन्य सभी में तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है।

नियम 7 यदि दिए गए विकल्पों में हथियारों के नाम हो तो अस्त्र, शस्त्र के आधार पर उत्तर ज्ञात किया जाता है

Ex:- भिन्न शब्द ज्ञात करें।

- (a) बन्दूक (b) पिस्तौल (c) तलवार (d) राईफल

व्याख्या-(c) तलवार को छोड़कर अन्य सभी शस्त्र है

नियम 8 यदि दिए गए विकल्पों में प्राणियों के नाम हो तो शाकाहारी/मांसाहारी, पालतू/जंगली, अण्डज/स्तनपायी आदि के आधार पर उत्तर ज्ञात करते हैं

Ex:- (a) मगरमच्छ (b) घड़ियाल (c) व्हेल (d) साँप

व्याख्या-(c) व्हेल को छोड़कर अन्य सभी अण्डज प्राणी है।

भाग - II

भिन्न संख्या तथा अक्षर समूह ज्ञात करना

इस प्रकार की परीक्षा में चार अंक, संख्या या अक्षर समूह दिये होते हैं, जिनमें तीन आपस में सम्बन्ध बनाते हैं और एक अलग होता है जिसे बताना होता है। यहां प्रश्नों को समझने के लिए कुछ उदाहरण दिये हैं जिन्हें ध्यान से पढ़ें

वर्ग पर आधारित वर्गीकरण

Ex:- (a) 16 (b) 80 (c) 49 (d) 81

व्याख्या- $4^2 = 16$, $7^2 = 49$ तथा $9^2 = 81$ जबकि 80 किसी संख्या का वर्ग नहीं है अतः 80 भिन्न संख्या है।

घन पर आधारित वर्गीकरण

Ex:- (a) 27 (b) 64 (c) 729 (d) 506

व्याख्या- $3^3 = 27$, $4^3 = 64$, $9^3 = 729$ जबकि 506 किसी संख्या का घन नहीं है अतः 506 भिन्न संख्या है।

अंको के योगफल पर आधारित

Ex:- (a) 136 (b) 244 (c) 324 (d) 514

व्याख्या-(c) प्रत्येक विकल्प में दी गई संख्या के अंकों का योग दस है जैसे $1 + 3 + 6 = 10$, $2 + 4 + 4 = 10$, $5 + 1 + 4 = 10$ । जबकि विकल्प (c) में $3 + 2 + 4 = 9$ है।

भाजकता के आधार पर वर्गीकरण

Ex:- (a) 117, 13 (b) 162, 18 (c) 171, 19 (d) 304, 16

व्याख्या-(d) यदि हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। जैसे $117 \div 13 = 9$, $162 \div 18 = 9$, $171 \div 19 = 9$ जबकि (d) से हमें $304 \div 16 = 19$ प्राप्त होता है। अतः (d) बाकी से भिन्न है।

अंको की पुनरावृत्ति पर आधारित

Ex:- (a) 9345 (b) 7246 (c) 9656 (d) 8739

व्याख्या-संख्या 9656 में अंक 6 दो बार आया है जबकि अन्य सभी संख्याओं में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं है अतः 9656 भिन्न संख्या है।

सम व विषम संख्या पर आधारित

Ex:- (a) 246 (b) 9538 (c) 723 (d) 8674

व्याख्या-संख्या 723 को छोड़कर अन्य सभी सम संख्या है जबकि 723

एक विषम संख्या है अतः 723 भिन्न संख्या है।

अभाज्य संख्या पर आधारित

Ex:- (a) 7 (b) 9 (c) 3 (d) 2

व्याख्या-संख्या 9 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्या है जबकि 9 एक भाज्य संख्या है अतः 9 भिन्न संख्या है।

आरोही एवं अवरोही क्रम पर आधारित

Ex:- (a) 2456 (b) 1235 (c) 3452 (d) 5678

व्याख्या-संख्या 3462 को छोड़कर अन्य सभी सम संख्याओं के अंक बढ़ते क्रम में हैं जबकि 3462 का अंतिम अंक घटते क्रम में है।

Ex:- निम्नलिखित में शब्दों का एक समूह बना हुआ है और उनमें से एक शब्द भिन्न है जिसे आप को बताना है-

- (a) node (b) abode (c) shy (d) across

व्याख्या-(c) बाकी सभी विकल्पों में एक या उससे अधिक स्वर हैं जबकि shy में कोई स्वर नहीं है।

Ex:- निम्नलिखित में शब्दों का एक समूह बना हुआ है और उनमें से एक शब्द भिन्न है जिसे आप को बताना है।

- (a) AYZB (b) BXCZ (c) DVEW (d) MPON

व्याख्या-(d) बाकी में दो-दो अक्षर वर्णमाला के सीधे रूप में तथा उल्टे रूप में एक छोड़कर एक के रूप में लिखे हुए हैं। जबकि (d) में इस प्रकार की श्रृंखला का पालन नहीं किया गया है अतः यह बाकी से भिन्न है।

Ex:- (a) TRAIN (b) PROUD (c) WHITE (d) FLOUR

व्याख्या-(c) WHITE को छोड़कर अन्य सभी में स्वर साथ-साथ हैं जबकि WHITE में स्वर एकांतर क्रम में हैं।

Ex:- (a) A (b) E (c) H (d) Z

व्याख्या-(b) E को छोड़कर अन्य सभी में तीन रेखाओं से अक्षर का निर्माण किया गया है जबकि E में चार रेखाएँ हैं।

Ex:- (a) DEAR (b) TEAR (c) CEAR (d) WEAR

व्याख्या-(c) CEAR को छोड़कर अन्य सभी अर्थपूर्ण शब्द हैं।

Ex:- (a) DER (b) KNIP (c) DLEIF (d) NEERG

व्याख्या-(c) DLIEF को छोड़कर अन्य सभी से रंगों के नाम (RED, PINK, GREEN) बनते हैं जबकि से FIELD शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है मैदान

प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न

निर्देश : प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक बाकी विकल्पों से अलग है। उस विकल्प को छांटिए-

- (a) पेड़ (b) टहनी (c) पत्ते (d) जड़
- (a) फ्रेंच (b) जर्मन (c) इंग्लैंड (d) संस्कृत
- (a) टका (b) पैसा (c) रियाल (d) ग्राम
- (a) डॉक्टर (b) रोगी (c) नाई (d) हजामत
- (a) सेव (b) केला (c) अंगूर (d) गाजर
- (a) गाय (b) जानवर (c) जेबरा (d) लोमड़ी
- (a) तलवार (b) भाला (c) चाकू (d) बन्दूक
- (a) कालीन (b) रजई (c) शाल (d) कम्बल

9. (a) राम	(b) सीता	(c) सरिता	(d) गीता	54. (a) टोली	(b) समूह	(c) भीड़	(d) वर्ग
10. (a) बर्फ	(b) पानी	(c) दूध	(d) भाप	55. (a) हिरण	(b) लोमड़ी	(c) घोड़ा	(d) गीदड़
11. (a) लखनऊ	(b) कोचीन	(c) हैदराबाद	(d) चेन्नई	56. (a) गाय	(b) मुर्गी	(c) बिल्ली	(d) भेड़
12. (a) अक्षर	(b) शब्द	(c) वाक्य	(d) भाषण	57. (a) शेर	(b) गाय	(c) चीता	(d) तेंदुआ
13. (a) एशिया	(b) अमेरिका	(c) अफ्रीका	(d) भारत	58. (a) उल्लू	(b) तोता	(c) बाज	(d) शिखरा
14. (a) प्याज	(b) आलू	(c) लहसुन	(d) टमाटर	59. (a) उत्तर	(b) दक्षिण	(c) पूर्व	(d) द-पूर्व
15. (a) लोहा	(b) पारा	(c) सोना	(d) चांदी	60. (a) टाइल	(b) फर्श	(c) छत	(d) दीवार
16. (a) पारा	(b) लोहा	(c) हीरा	(d) सोना	61. (a) लेखक	(b) प्रकाशक	(c) सम्पादक	(d) मुद्रक
17. (a) कॉफी	(b) पैन	(c) पैनिसल	(d) बॉलपैन	62. (a) तबला	(b) पखावज	(c) मृदंगम	(d) सितार
18. (a) झोंपड़ी	(b) घर	(c) दफ्तर	(d) बंगला	63. (a) रेशम	(b) कपास	(c) नॉयलान	(d) ऊन
19. (a) हरियाणा	(b) बिहार	(c) सिक्किम	(d) भूटान	64. (a) टेबल	(b) कुर्सी	(c) मेज	(d) बल्ब
20. (a) पाऊंड	(b) रुपया	(c) सिक्का	(d) रूबल	65. (a) कुआँ	(b) नदी	(c) झील	(d) सरोवर
21. (a) हैदराबाद	(b) मैसूर	(c) पटना	(d) लखनऊ	66. (a) शिक्षक	(b) प्राचार्य	(c) छात्र	(d) व्याख्याता
22. (a) कलाकार	(b) चित्रकार	(c) लेखक	(d) कुम्हार	67. (a) गान	(b) लिखावट	(c) गायक	(d) संगीत
23. (a) मछली	(b) सांप	(c) मगरमच्छ	(d) घड़ियाल	68. (a) पृथ्वी	(b) शनि	(c) बृहस्पति	(d) चन्द्रमा
24. (a) आंख	(b) कान	(c) जीभ	(d) बोलना	69. (a) दरवाजा	(b) गेट	(c) मेज	(d) खिड़की
25. (a) रेखा	(b) त्रिभुज	(c) वृत्त	(d) बिन्दु	70. (a) रंगून	(b) दिल्ली	(c) कलकत्ता	(d) बगदाद
26. (a) पेड़	(b) तना	(c) फूल	(d) पत्ती	71. (a) भारत	(b) म्यांमार	(c) नेपाल	(d) लाहौर
27. (a) झाड़ी	(b) पौधा	(c) पत्ती	(d) लता	72. (a) सूरज	(b) बादल	(c) चांद	(d) पृथ्वी
28. (a) कलकत्ता	(b) चेन्नई	(c) जयपुर	(d) मुंबई	73. (a) चूहा	(b) गाय	(c) कौआ	(d) सूअर
29. (a) कार	(b) रिक्शा	(c) स्कूटर	(d) बस	74. (a) शेर	(b) कुत्ता	(c) भेड़िया	(d) गीदड़
30. (a) दुल्हा	(b) भाई	(c) पिता	(d) दुल्हन	75. (a) बैन्जो	(b) गिटार	(c) सारंगी	(d) सितारवादन
31. (a) गैलेलियो	(b) आइन्स्टीन	(c) कालीदास	(d) रमन	76. (a) सलाह	(b) परामर्श	(c) सुझाव	(d) निर्देश
32. (a) आँख	(b) कान	(c) नाक	(d) दिल	77. (a) लुहार	(b) दर्जी	(c) नाविक	(d) बढई
33. (a) साहस	(b) शत्रु	(c) डर	(d) प्रेम	78. (a) सितार	(b) वायलन	(c) तबला	(d) तानपुरा
34. (a) माता	(b) बच्चा	(c) चाचा	(d) भाई	79. (a) सूत	(b) टेरीन	(c) रेशम	(d) ऊन
35. (a) लम्बा	(b) छोटा	(c) मोटा	(d) आकार	80. (a) बन्दर	(b) बिल्ली	(c) अजगर	(d) नेवला
36. (a) दूध	(b) दही	(c) मक्खन	(d) डालडा	81. (a) पिस्तौल	(b) तलवार	(c) बंदूक	(d) राइफल
37. (a) कछुआ	(b) बतख	(c) साँप	(d) व्हेल	82. (a) दौड़ना	(b) तैरना	(c) नाचना	(d) सांस लेना
38. (a) कुल्हाड़ी	(b) तलवार	(c) चाकू	(d) हथौड़ा	83. (a) ऊन	(b) पर	(c) घास	(d) बाल
39. (a) चाचा	(b) भतीजा	(c) भाई	(d) चचेरा	84. (a) गवाह	(b) कचहरी	(c) वकील	(d) न्यायाधीश
40. (a) सुनना	(b) तैरना	(c) चलना	(d) दौड़ना	85. (a) किताब	(b) कागज	(c) पेन्सिल	(d) पेन
41. (a) हथौड़ा	(b) सूई	(c) पिन	(d) कील	86. (a) सूर्य	(b) चन्द्रमा	(c) तारे	(d) ब्रह्माण्ड
42. (a) गिबबन	(b) चिम्पांजी	(c) गोरिल्ला	(d) जगुआर	87. (a) छात्रावास	(b) होटल	(c) सराय	(d) घर
43. (a) गाजर	(b) अमरूद	(c) टमाटर	(d) मटर	88. (a) अनानास	(b) संतरा	(c) टमाटर	(d) केला
44. (a) पाठक	(b) लेखक	(c) रिपोर्टर	(d) प्रकाशक	89. (a) दर्जी	(b) बढई	(c) लुहार	(d) नाई
45. (a) कूदना	(b) दौड़ना	(c) व्यायाम	(d) घुमना	90. (a) पाऊंड	(b) येन	(c) ओन्स	(d) फ्रैंक
46. (a) माता	(b) मित्र	(c) बहन	(d) पिताजी	91. (a) केरल	(b) कर्नाटक	(c) पंजाब	(d) जम्मू
47. (a) कैलेन्डर	(b) वर्ष	(c) तारीख	(d) महीना	92. (a) प्याज	(b) टमाटर	(c) आलू	(d) गाजर
48. (a) सूत	(b) ऊन	(c) जूट	(d) नायलॉन	93. (a) जनवरी	(b) फरवरी	(c) जुलाई	(d) दिसम्बर
49. (a) राजा	(b) रानी	(c) साधु	(d) मंत्री	94. (a) दलाल	(b) सेल्समैन	(c) ग्राहक	(d) फेरीवाला
50. (a) बाघ	(b) गाय	(c) चीता	(d) तेंदुआ	95. (a) मकान	(b) अपार्टमेंट	(c) भवन	(d) संस्था
51. (a) तलवार	(b) कटार	(c) राइफल	(d) चाकू	96. (a) बैडमिंटन	(b) वॉलीबाल	(c) हॉकी	(d) क्रिकेट
52. (a) पौधा	(b) जड़	(c) तना	(d) पत्ती	97. (a) घंटा	(b) हप्ता	(c) अर्धमास	(d) कलेंडर
53. (a) साड़ी	(b) फ्रॉक	(c) स्कर्ट	(d) पगड़ी	98. (a) वायुयान	(b) पक्षी	(c) टैंकर	(d) हवाई छतरी

99. (a) छिपाना (b) प्रकट करना (c) ढकना (d) गुप्त रखना
 100. (a) कुचीपुड़ी (b) कथक (c) डिस्को (d) मणिपुरी
 101. (a) किलोमीटर (b) किलोग्राम (c) फर्लांग (d) गज
 102. (a) बहुतायत (b) प्रचुर (c) बहुत अधिक (d) विस्तृत
 103. (a) कमांडर (b) कोमोडोर (c) बिग्रेडियर (d) एडमिरल

व्याख्या सहित उत्तर

- 1.(a) पेड़ को छोड़कर अन्य सभी इसके भाग है
 2.(c) इंग्लैण्ड को छोड़कर अन्य सभी भाषाएँ हैं जबकि इंग्लैण्ड एक देश का नाम है।
 3.(d) ग्राम को छोड़कर अन्य सभी मुद्राएँ हैं जबकि ग्राम वजन का मात्रक है।
 4.(d) हजामत एक कार्य है जबकि अन्य सभी व्यक्ति हैं
 5.(d) गाजर को छोड़कर अन्य सभी फल हैं।
 6.(b) गाय जेबरा, लोमड़ी सभी जानवर के अन्तर्गत आते हैं।
 7.(d) तलवार, भाला, चाकू सभी अस्त्र हैं जबकि बन्दूक शस्त्र है।
 8.(a) कालीन को छोड़कर अन्य सभी में ऊन का प्रयोग होता है।
 9.(a) राम को छोड़कर अन्य सभी स्त्रीलिंग हैं।
 10.(c) दूध को छोड़कर अन्य सभी पानी के रूप हैं।
 11.(b) कोचीन को छोड़कर अन्य सभी राजधानियाँ हैं।
 12.(d) भाषण के अन्तर्गत अक्षर, शब्द तथा वाक्य सभी आते हैं।
 13.(d) भारत को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीप हैं।
 14.(d) टमाटर को छोड़कर अन्य सभी जमीन में अन्दर उगते हैं।
 15.(b) पारा को छोड़कर अन्य सभी ठोस धातु हैं जबकि पारा द्रव धातु है।
 16.(c) हीरे को छोड़कर अन्य सभी ठोस या द्रव धातु हैं जबकि हीरा कार्बन का अपररूप है।
 17.(a) अन्य सभी साधनों से काँपी पर कार्य किया जाता है।
 18.(c) दफ्तर को छोड़कर अन्य सभी आवास स्थल हैं
 19.(d) भूटान एक देश का नाम है जबकि अन्य सभी भारत देश के राज्य हैं।
 20.(c) अन्य सभी मुद्राएँ हैं जबकि सिक्का मुद्रा का एक रूप है।
 21.(b) मैसूर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की राजधानियाँ हैं।
 22.(a) ये सभी कलाकार के अन्तर्गत आते हैं।
 23.(a) मछली को छोड़कर अन्य सभी उभयचर प्राणी हैं जबकि मछली एक जलचर प्राणी है।
 24.(d) बोलना एक मानवीय क्रिया है जबकि अन्य ज्ञानेन्द्रियाँ हैं।
 25.(d) अन्य सभी आकृति बिन्दुओं से मिलकर बनती हैं
 26.(a) अन्य सभी पेड़ के भाग हैं।
 27.(c) अन्य सभी पौधों के प्रकार हैं जबकि पत्ती पौधे का एक भाग है।
 28.(c) अन्य सभी महानगर हैं।
 29.(b) रिक्शा को छोड़कर अन्य सभी इंजन से चलते हैं जबकि रिक्शा हस्तचालित है
 30.(d) अन्य सभी पुल्लिंग एवं एक ही परिवार के सदस्य होते हैं।
 31.(c) कालीदास को छोड़कर अन्य सभी वैज्ञानिक हैं।

- 32.(d) दिल को छोड़कर अन्य सभी अंग शरीर के बाह्य अंग हैं।
 33.(b) शत्रु मानव है जबकि अन्य मानवीय भावनाएँ हैं।
 34.(b) बच्चे को छोड़कर अन्य सभी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निश्चित हैं।
 35.(d) अन्य सभी आकार के प्रकार हैं।
 36.(d) वनस्पति घी को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक हैं।
 37.(d) व्हेल को छोड़कर अन्य सभी उभयचर प्राणी हैं जबकि व्हेल जलचर प्राणी है।
 38.(d) हथौड़ा को छोड़कर अन्य सभी काटने का कार्य करते हैं।
 39.(d) चचेरा रिश्ते का नाम है जबकि अन्य सभी व्यक्ति हैं।
 40.(a) सुनना को छोड़कर अन्य सभी मानवीय क्रियाओं में पैरों का उपयोग होता है।
 41.(a) हथौड़ा को छोड़कर अन्य सभी का एक सिरा नुकीला होता है।
 42.(d) जगुआर को छोड़कर अन्य सभी बन्दर की प्रजाति हैं जबकि जगुआर बिल्ली की प्रजाति है।
 43.(b) अमरूद को छोड़कर अन्य सभी सब्जियाँ हैं।
 44.(a) अन्य सभी पाठक के लिए कार्य करते हैं।
 45.(c) अन्य सभी व्यायाम के प्रकार हैं।
 46.(b) मित्र को छोड़कर अन्य सभी एक ही परिवार में होते हैं।
 47.(a) अन्य सभी कैलेण्डर में आते हैं।
 48.(d) नायलॉन को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक हैं।
 49.(c) साधु को छोड़कर अन्य राजतंत्र से संबंधित हैं।
 50.(b) गाय को छोड़कर अन्य सभी माँसाहारी हैं।
 51.(c) राईफल को छोड़कर अन्य सभी काटने का कार्य करते हैं।
 52.(a) अन्य सभी पौधे के भाग हैं।
 53.(d) पगड़ी को छोड़कर अन्य सभी महिला परिधान हैं।
 54.(c) भीड़ को छोड़कर अन्य सभी में संख्या निश्चित होती है।
 55.(a) घोड़ा को छोड़कर अन्य सभी जंगली पशु हैं।
 56.(b) मुर्गी को छोड़कर अन्य सभी पशु हैं।
 57.(b) गाय को छोड़कर अन्य सभी माँसाहारी पशु हैं।
 58.(b) तोता को छोड़कर अन्य सभी माँसाहारी पक्षी हैं।
 59.(d) द.पूर्व को छोड़कर अन्य सभी मूल दिशाएँ हैं।
 60.(a) टाइल को प्रयोग अन्य तीनों में किया जाता है।
 61.(d) अन्य सभी लेखन का कार्य करते हैं जबकि मुद्रक उन्हें छापने का कार्य करता है।
 62.(d) सितार में तार से ध्वनि उत्पन्न होती है जबकि अन्य सभी में हाथ की थाप से।
 63.(c) नाइलोन को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक हैं।
 64.(d) बल्ब को छोड़कर अन्य सभी फर्नीचर से संबंधित हैं।
 65.(b) नदी को छोड़कर अन्य सभी में पानी स्थिर रहता है।
 66.(c) अन्य सभी छात्र से संबंधित हैं।
 67.(c) गायक को छोड़कर अन्य सभी क्रियाएँ हैं जबकि गायक एक व्यक्ति

होता है।

- 68.(d) चन्द्रमा को छोड़कर अन्य सभी ग्रह हैं जबकि चन्द्रमा एक उपग्रह है।
69.(c) मेज को छोड़कर अन्य सभी कमरे के भाग हैं।
70.(c) कलकत्ता को छोड़कर अन्य सभी देश की राजधानियां हैं।
71.(d) लाहौर को छोड़कर अन्य सभी देश हैं।
72.(b) बादल को छोड़कर अन्य सभी सौरमण्डल के भाग हैं।
73.(c) कौआ को छोड़कर अन्य सभी पशु हैं।
74.(b) कुत्ता को छोड़कर अन्य सभी मांसाहारी पशु हैं।
75.(d) सितारवादन को छोड़कर अन्य सभी वाद्ययंत्र हैं।
76.(d) निर्देश का पालन करना आवश्यक है जबकि अन्य का पालन करना इच्छानुसार होता है।
77.(c) नाविक को छोड़कर अन्य सभी किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं।
78.(c) तबला को छोड़कर अन्य सभी में तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है।
79.(b) टेरीन को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक हैं।
80.(c) अजगर को छोड़कर अन्य सभी स्तनधारी प्राणी हैं।
81.(b) तलवार को छोड़कर अन्य सभी दूर जाकर मार करती हैं।
82.(d) सांस लेना के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं में पैरों का उपयोग होता है।
83.(c) घास को छोड़कर अन्य सभी जानवर के शरीर के अंग हैं।
84.(b) अन्य सभी कचहरी में होते हैं।
85.(a) किताब को छोड़कर अन्य सभी स्टेशनरी में आते हैं।
86.(d) अन्य सभी ब्रह्माण्ड में आते हैं।
87.(d) घर को छोड़कर अन्य सभी हमारे अस्थायी निवास होते हैं।
88.(c) टमाटर को छोड़कर अन्य सभी फल हैं। जबकि टमाटर सब्जी के अन्तर्गत माना जाता है।
89.(d) नाई को छोड़कर अन्य सभी को अपना कार्य करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है।
90.(c) ओन्स वजन का मात्रक है जबकि अन्य सभी मुद्राएँ हैं।
91.(d) जम्मू को छोड़कर अन्य सभी राज्य हैं।
92.(b) टमाटर को छोड़कर अन्य सभी जमीन के अंदर उगते हैं।
93.(b) फरवरी को छोड़कर अन्य सभी में 31 दिन होते हैं।
94.(c) अन्य सभी ग्राहक के लिए कार्य करते हैं।
95.(d) संस्था को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति के निवास स्थान होते हैं जबकि संस्था व्यक्ति के कार्य करने का स्थान है।
96.(a) बैडमिंटन को छोड़कर अन्य सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं।
97.(d) अन्य सभी कैलेण्डर के अन्तर्गत आते हैं।
98.(c) टैंकर को छोड़कर अन्य सभी हवा से संबंधित हैं।
99.(b) प्रकट करना को छोड़कर अन्य सभी छिपाने के बारे में दर्शाते हैं।
100.(c) डिस्को को छोड़कर अन्य सभी शास्त्रीय नृत्य हैं।
101.(b) किलोग्राम को छोड़कर अन्य सभी दूरी के मात्रक हैं।
102.(d) विस्तृत को छोड़कर अन्य सभी संख्या को प्रदर्शित करते हैं।
103.(c) ब्रिगेडियर को छोड़कर अन्य सभी नौसेना के पद हैं।

भाग-II

निर्देश :- असंगत ज्ञात कीजिए

- | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. (a) N | (b) Z | (c) H | (d) T |
| 2. (a) A | (b) B | (c) E | (d) O |
| 3. (a) X | (b) P | (c) T | (d) I |
| 4. (a) A | (b) I | (c) D | (d) E |
| 5. (a) U | (b) V | (c) W | (d) X |
| 6. (a) D | (b) E | (c) F | (d) G |
| 7. (a) A | (b) B | (c) C | (d) D |
| 8. (a) QOOM | (b) WUUS | (c) JIIF | (d) VTTR |
| 9. (a) HDFI | (b) NJLO | (c) SOQT | (d) WSXZ |
| 10. (a) ZXVT | (b) USQO | (c) DEFG | (d) PNLJ |
| 11. (a) AFCG | (b) DIGL | (c) INLQ | (d) OTRW |
| 12. (a) EDHG | (b) LKON | (c) UVWX | (d) QPTS |
| 13. (a) RUHS | (b) DWFU | (c) IRNM | (d) GTIR |
| 14. (a) AZBY | (b) CXDW | (c) EVFW | (d) GTHS |
| 15. (a) JIMN | (b) DCPQ | (c) RSDC | (d) LKXY |
| 16. (a) DINS | (b) CHNR | (c) BGLQ | (d) AFKP |
| 17. (a) ACE | (b) FHJ | (c) KLM | (d) SUW |
| 18. (a) ABCD | (b) RSTU | (c) YZAB | (d) VZAC |
| 19. (a) CEAR | (b) TEAR | (c) FEAR | (d) WEAR |
| 20. (a) TRAIN | (b) GREEN | (c) FLOOR | (d) WHITE |
| 21. (a) TRAIN | (b) DRAIN | (c) GAIN | (d) BRAIN |
| 22. (a) ROPE | (b) WED | (c) DON | (d) POT |
| 23. (a) NUN | (b) POP | (c) DAM | (d) LUL |
| 24. (a) SORE | (b) SOTLU | (c) NORAGE | (d) MEJNAIS |
| 25. (a) TOPS | (b) PENOH | (c) DRIOA | (d) OKBO |
| 26. (a) RTCROA | (b) JLBNIRA | (c) ATMOOT | (d) ANANBA |
| 27. (a) ATNIR | (b) CUTKR | (c) ADRO | (d) TMAR |
| 28. (a) KNIP | (b) TELIOV | (c) DER | (d) DLEIF |
| 29. (a) KITCERC | (b) SSHEC | (c) LOBFLOAT | (d) YEKHOC |
| 30. (a) 5 | (b) 7 | (c) 9 | (d) 11 |
| 31. (a) 8 | (b) 9 | (c) 27 | (d) 64 |
| 32. (a) 1 | (b) 8 | (c) 65 | (d) 64 |
| 33. (a) 25 | (b) 37 | (c) 49 | (d) 58 |
| 34. (a) 13 | (b) 26 | (c) 14 | (d) 88 |
| 35. (a) 35 | (b) 37 | (c) 23 | (d) 19 |
| 36. (a) 23 | (b) 37 | (c) 9 | (d) 17 |
| 37. (a) 99 | (b) 63 | (c) 45 | (d) 21 |
| 38. (a) 1 | (b) 16 | (c) 81 | (d) 243 |
| 39. (a) 9 | (b) 34 | (c) 24 | (d) 48 |
| 40. (a) 5 | (b) 11 | (c) 30 | (d) 19 |
| 41. (a) 22 | (b) 36 | (c) 66 | (d) 44 |
| 42. (a) 63 | (b) 140 | (c) 35 | (d) 50 |
| 43. (a) 15 | (b) 19 | (c) 41 | (d) 53 |
| 44. (a) 8 | (b) 42 | (c) 49 | (d) 35 |
| 45. (a) 72 | (b) 45 | (c) 81 | (d) 28 |
| 46. (a) 43 | (b) 53 | (c) 63 | (d) 73 |
| 47. (a) 65 | (b) 85 | (c) 35 | (d) 25 |
| 48. (a) 15 | (b) 19 | (c) 41 | (d) 53 |
| 49. (a) 963 | (b) 862 | (c) 462 | (d) 761 |
| 50. (a) 144 | (b) 169 | (c) 196 | (d) 210 |
| 51. (a) 131 | (b) 256 | (c) 196 | (d) 225 |
| 52. (a) 527 | (b) 639 | (c) 246 | (d) 356 |
| 53. (a) 124 | (b) 169 | (c) 225 | (d) 289 |
| 54. (a) 572 | (b) 693 | (c) 484 | (d) 375 |
| 55. (a) 729 | (b) 144 | (c) 343 | (d) 512 |
| 56. (a) 343 | (b) 256 | (c) 196 | (d) 225 |

57. (a) 6958 (b) 7948 (c) 6895 (d) 9783
 58. (a) 5720 (b) 6710 (c) 6240 (d) 4270
 59. (a) 6121 (b) 7364 (c) 1036 (d) 2710
 60. (a) 2016 (b) 3006 (c) 3016 (d) 3330
 61. (a) 1243 (b) 7516 (c) 4514 (d) 9425
 62. (a) 4512 (b) 1109 (c) 1722 (d) 3621
 63. (a) 6898 (b) 6119 (c) 8118 (d) 6699
 64. (a) 11 -13 (b) 11 -17 (c) 31 -35 (d) 23 - 29
 65. (a) 6 : 34 (b) 12 : 64 (c) 20 : 96 (d) 09 : 49
 66. (a) 32-41 (b) 62-44 (c) 46-28 (d) 33-53
 67. (a) 24-12 (b) 36-12 (c) 84-42 (d) 46-23
 68. (a)(52,142) (b)(54,126) (c)(56,168) (d) (58,184)
 69. (a) 94-7 (b) 42-6 (c) 35-5 (d) 56-8
 70. (a) 81 : 243 (b) 16 : 64 (c) 64 : 192 (d) 25 : 75
 71. (a) 14, 9 (b) 17, 8 (c) 42, 3 (d) 21, 6
 72. (a) 12 -96 (b) 13 -117 (c) 15 -120 (d) 16 -128
 73. (a) 40-5 (b) 60-12 (c) 32-4 (d) 88-11
 74. (a) 26 - 62 (b) 36 - 63 (c) 46 - 64 (d) 56 - 18
 75. (a) 64 - 8 (b) 80 - 9 (c) 49 - 7 (d) 36 - 6
 76. (a) (23 , 14) (b) (36 , 27) (c) (29 , 82) (d) (18 , 45)
 77. (a) 5, 3, 2, 9 (b) 2, 4, 3, 9 (c) 1, 4, 3, 8 (d) 3, 2, 3, 8
 78. (a) 34-12 (b) 52-21 (c) 43-30 (d) 62-19
 79. (a) (22-3) (b) (28-4) (c) (36-5) (d) (43-6)

व्याख्या सहित उत्तर

1. (d) N को छोड़कर अन्य सभी अक्षर का निर्माण तीन रेखाओं से हुआ है।
 2. (b) B को छोड़कर अन्य सभी स्वर है।
 3. (d) I को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन है।
 4. (c) D को छोड़कर अन्य सभी स्वर है।
 5. (a) U को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन है।
 6. (b) E को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन है।
 7. (a) A को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन है।
 8. (c) $Q \xrightarrow{-2} O \xrightarrow{+0} O \xrightarrow{-2} M$
 $W \xrightarrow{-2} U \xrightarrow{+0} U \xrightarrow{-2} S$
 $J \xrightarrow{-1} I \xrightarrow{+0} I \xrightarrow{-2} F$
 $V \xrightarrow{-2} T \xrightarrow{+0} T \xrightarrow{-2} R$
 अतः विकल्प JIIF भिन्न है।
 9. (d) $H \xrightarrow{-4} D \xrightarrow{+2} F \xrightarrow{+3} I$
 $N \xrightarrow{-4} J \xrightarrow{+2} L \xrightarrow{+3} O$
 $S \xrightarrow{-4} O \xrightarrow{+2} Q \xrightarrow{+3} T$
 $W \xrightarrow{-4} S \xrightarrow{+5} X \xrightarrow{+2} Z$
 अतः विकल्प WSXZ भिन्न है।
 10. (c) DEFG अन्य से भिन्न शब्द है। क्योंकि अन्य सभी में 2 अक्षर घट रहे हैं।
 11. (a) AFCG भिन्न शब्द है। क्योंकि इसको छोड़कर अन्य सभी में +5, +5 का अंतर है।
 12. (c) UVWX भिन्न शब्द है। क्योंकि अन्य सभी में 1 अक्षर घट रहा है

- जबकि UVWX क्रमागत है
 13. (a) RUHS को छोड़कर अन्य सभी शब्दों में दो-दो शब्द एक दुसरे के विपरीत है।
 14. (c) बाकी सभी विकल्पों में, विपरीत क्रम से दूसरा व चौथा अक्षर लगातार क्रम से आ रहे हैं।
 15. (c) बाकी सभी विकल्पों में, पहले और दूसरे अक्षर में एक की कमी तथा तीसरे और चौथे अक्षर में एक की वृद्धि हो रही है।
 16. (b) बाकी सभी विकल्पों के पहले, दूसरे तथा तीसरे, चौथे अक्षर में पाँच की वृद्धि हो रही है।
 17. (c) बाकी सभी विकल्पों पहले, दूसरे तथा तीसरे अक्षर में दो-दो की वृद्धि हो रही है।
 18. (d) बाकी सभी विकल्पों में अक्षर क्रमागत है।
 19. (a) CEAR को छोड़कर अन्य सभी अर्थपूर्ण शब्द है।
 20. (d) WHITE को छोड़कर अन्य सभी शब्दों में स्वर एक साथ है।
 21. (c) GAIN को छोड़कर अन्य सभी में पाँच अक्षर है।
 22. (a) ROPE में दो स्वर है जबकि अन्य में केवल एक स्वर का प्रयोग किया गया है।
 23. (c) DAM को छोड़कर अन्य सभी का पहला और अंतिम अक्षर समान है तथा प्रत्येक के मध्य में एक स्वर है।
 24. (c) दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर चार अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं जिनमें से तीन फूल है और एक फल का नाम है
 SORE-ROSE (गुलाब), SOTLU-LOTUS (कमल),
 NORAGE-ORANGE (नारंगी), MEJNAIS-JASMINE (चमेली)
 25. (a) दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर चार अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं जिनमें से तीन वस्तु है और एक भाव का नाम है
 TOPS-POST (पद), PENOH-PHONE (दूरभाष),
 DRIOA-RADIO (रेडियो), OKBO-BOOK (पुस्तक)
 26. (d) दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर चार अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं जिनमें से तीन सब्जी है और एक फल का नाम है
 RTCROA-CARROT (गाजर), JLBNIIRA-BRINJAL (बैंगन),
 ATMOOT-TOMATO (टमाटर), ANANBA-BANANA (केला)
 27. (c) दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर चार अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं जिनमें से तीन वाहन है और एक अन्य है
 ATNIR-TRAIN (रेलगाड़ी), CUTKR-TRUCK (ट्रक),
 ADRO-ROAD (सड़क), TMAR-TRAM (ट्रॉम)
 28. (d) दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर चार अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं जिनमें से तीन रंग है और एक अन्य है
 KNIP-PINK (गुलाबी), TELIOV-VOILET (बैंगनी),
 DER-RED (लाल), DLEIF-FIELD (क्षेत्र/खेत)
 29. (b) दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर चार अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं जिनमें से तीन खेलों में 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है जबकि शतरंज में केवल दो खिलाड़ियों की आवश्यकता है।
 KITCERE-CRICKET (क्रिकेट), SSHEC-CHESS (शतरंज),
 LOBFLOAT-FOOTBALL (फुटबॉल), YEKHOC-HOCKEY (हॉकी)
 30. (c) 9 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।

31. (a) 8 को छोड़कर अन्य सभी घन संख्याएँ हैं।
32. (c) 65 को छोड़कर अन्य सभी घन संख्याएँ हैं।
33. (b) 35 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।
34. (a) 13 को छोड़कर अन्य सभी भाज्य संख्याएँ हैं।
35. (a) 35 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।
36. (c) 9 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।
37. (d) 21 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएँ 9 से भाज्य हैं।
38. (d) 243 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएँ हैं।
39. (b) 34 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएँ 3 से भाज्य हैं।
40. (c) 30 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य हैं।
41. (b) 36 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएँ 11 से भाज्य हैं।
42. (d) 50 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएँ 7 से भाज्य हैं।
43. (a) 15 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य हैं।
44. (a) 8 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएँ 7 से भाज्य हैं।
45. (d) 28 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएँ 9 से भाज्य हैं।
46. (c) 63 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य हैं।
47. (a) 25 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएँ नहीं हैं।
48. (a) 15 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य हैं।
49. (b) 862 को छोड़कर अन्य सभी में दूसरे और तीसरे अंक का योग प्रथम अंक है।
50. (d) 210 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएँ हैं।
51. (a) 131 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएँ हैं।
52. (d) 356 को छोड़कर अन्य सभी में पहले और दूसरे अंक का योग तीसरा अंक है।
53. (a) 124 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएँ हैं।
54. (a) 375 भिन्न है। क्योंकि अन्य सभी में पहले तथा दूसरे अंक का योग तीसरा अंक है।
55. (b) 144 को छोड़कर अन्य सभी घन संख्या है।
56. (a) 343 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएँ हैं।
57. (d) 9783 को छोड़कर अन्य सभी के अंको का योग 28 है।
58. (d) 4270 को छोड़कर अन्य सभी के अंको का योग सम संख्या है।
59. (b) 7364 को छोड़कर अन्य सभी के अंको का योग 10 है।
60. (c) 3016 को छोड़कर अन्य सभी के अंको का योग 9 है।
61. (b) 7516 को छोड़कर अन्य सभी के अंको का योग सम संख्या है।
62. (b) 1109 को छोड़कर अन्य सभी के अंको का योग 12 है।
63. (a) 6898 को छोड़कर अन्य सभी को उल्टा करके देखने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
64. (c) 31-35 को छोड़कर अन्य सभी में अभाज्य संख्याएँ हैं।
65. (c) 20-96 को छोड़कर अन्य सभी में पहली संख्या को 5 से गुणा करके उसमें 4 जोड़े गए हैं।
66. (d) 33-53 को छोड़कर अन्य सभी में पहली संख्या के अंको का योग दूसरी संख्या के अंको के योग के बराबर है।
67. (d) 36-12 को छोड़कर अन्य सभी में पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 बार भाज्य है।
68. (c) 56-168 को छोड़कर अन्य सभी में पहली संख्या के अंको का योग दूसरी संख्या के अंको के योग के बराबर है।
69. (a) बाकी सभी विकल्पों में पहला भाग, दूसरे भाग से पूर्णतः विभाजित होता है।
70. (b) बाकी सभी में दूसरा भाग पहले भाग का तीन गुणा है।
71. (b) बाकी सभी का परस्पर गुणनफल 126 है।
72. (b) बाकी सभी में दूसरा भाग पहले भाग का आठ गुणा है।
73. (b) बाकी सभी में पहला भाग दूसरे भाग का 8 गुणा है।
74. (d) बाकी सभी विकल्पों में पहले भाग की संख्या को दूसरे भाग में विपरीत क्रम में लिखा गया है।
75. (b) प्रत्येक विकल्प में एक संख्या और उसका वर्ग दिया गया है।
76. (c) बाकी सभी विकल्पों में दोनों भागों के अंकों का योग समान है।
77. (a) प्रत्येक विकल्प के तीनों भागों का योग, चौथे भाग के बराबर है।
78. (d) प्रत्येक विकल्प में पहले भाग का योग 7 व दूसरे भाग का योग 3 है।
79. (b) प्रत्येक विकल्प के पहले भाग से 1 घटाने पर यह 7 से विभाजित होता है।